

initial validity period of 18 months, will automatically be deemed to be valid for 24 months from the date of issue, provided these licences have not already been revalidated beyond their initial validity period of 18 months.

ईरान के उद्योग मंत्री की भारत यात्रा

* 627. श्री अन्न गंजाली : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) हान ही में ईरान के उद्योग मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और ईरान के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु किन मन्त्रियों तथा सरकारी अधिकारियों में साथ तथा किन प्रस्तावों पर बातचीत हुई थी , और

(ख) उपरोक्त बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) ईरान सरकार के उद्योग तथा खान मंत्री महामहिम श्री फारूख नजमबादी एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के लिए आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की एक बैठक के सम्बन्ध में भारत आये थे। नई दिल्ली में अपने ठहरने के दौरान, इरान मंत्री ने विदेश मंत्री और उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्री से मिष्टान्त के नाते भेंट की। उन्होंने दोनों मन्त्रालयों के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की जिसके दौरान दोनों देशों के बीच उद्योग के व्यापक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं पर पुनर्विलोकन किया गया। ईरानी पक्ष ने इस बात में दिलचस्पी प्रकट की कि विभिन्न क्षेत्रों में ईरान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वैश्व क्षमता उपलब्ध है उनका प्रयोग करके दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ किया जाए। इस बात पर सहमति हुई कि विशेषज्ञों का एक दल औद्योगिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमता तथा विशेष क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भारत आएँ।

Over-Invoicing and Under-Invoicing in Exports and Imports by Coca Cola Export Corporation

5877. SHRI SOMCHAND SOLANKI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Coca Cola Export Corporation has been resorting to over-invoicing in exports in order to earn higher importation replenishment licences during the last three years;

(b) whether it resorts to under-invoicing in the matter of imports of concentrate and is indulging in evasion of import duties; and

(c) whether his Ministry has received number of complaints against Coca Cola Export Corporation in this matter and still it has not recommended penal action under I(DR) Act and Customs Act against this firm?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Countries participated in Indian Engineering Trade Fair

5878. SHRI S. N. MISRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state

(a) the countries that participated in the recent Indian Engineering Trade Fair held in Delhi;

(b) how far this fair has been successful in increasing awareness in foreign countries about the engineering goods manufactured in India; and

(c) what follow-up action is being taken to tap foreign markets for the export of Indian engineering goods?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) Overseas country participation